

## भारत के उत्कृष्ट 100 विश्वविद्यालयों में तेजपुर विश्वविद्यालय पंचम

राष्ट्रपति का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय पुरस्कार, 2016 प्राप्त करने के कुछ ही दिन बाद तेजपुर विश्वविद्यालय ने अपने नाम किया एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि और भारत के उत्कृष्ट 100 विश्वविद्यालयों में तेजपुर विश्वविद्यालय ने पांचवा स्थान हासिल करने में सफल रहा। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत गठित एन आई आर एफ द्वारा किए गए भारत के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में तेजपुर विश्वविद्यालय ने पांचवा स्थान प्राप्त कर असम सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत को गौरवान्वित किया। भारत के 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची के साथ साथ अन्य तीन वर्ग में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की सूची माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 4 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में घोषित की जहाँ शैक्षिक जगत की कई जानी-मानी हस्तियाँ उपस्थित थीं।



इस रैंकिंग का मुख्य आधार पाँच क्षेत्र थे : शिक्षण अधिगम और संसाधन, शोध कार्य, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और सहयोगात्मक कार्य, ग्रेज्युएशन आउटकॉम, आउटरिच एवं समावेशिता और अभिज्ञता। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मिहिर कांति चौधुरी ने इस इस सफलता का श्रेय ; विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षण तथा गैर शिक्षण अधिकारियों/कर्मचारियों को देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के सभी वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के निष्ठा और लगन तथा कठिन परिश्रम के कारण ही विश्वविद्यालय को यह गौरव प्राप्त हुआ है। सूची में दिए गए शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों के नाम निम्नवत हैं:

रैंक	नाम	शहर	राज्य	स्कोर
1	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु	बंगलुरु	कर्णाटक	91.81
2	रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान	मुंबई	महाराष्ट्र	87.58
3	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	नई दिल्ली	दिल्ली	86.45
4	हैदराबाद विश्वविद्यालय	हैदराबाद	तेलंगाना	85.45
5	तेजपुर विश्वविद्यालय	तेजपुर	असम	84.31
6	दिल्ली विश्वविद्यालय	नई दिल्ली	दिल्ली	83.19
7	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	81.22
8	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरुवनंतपुरम	केरल	78.82
9	बिड़ला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान	पिलानी	राजस्थान	76.85
10	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	76.62